

AGREEMENT NO:-14/MMGSY(ST)ISBD/2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

CH OF WORK:-CHICHUABARI RAIPUR PATH

TOIHARKHUDA TENDU NO:-85955

RWD(WD) KISHANGANGJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

MB NO:-1141

MEASUREMENT BOOK

NAME OF AGENCY:-S/M INFRA PROJECTS

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री... राख प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल... के विभाग
के नाम से निर्गत किया जाता है।

26/7/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल
किसान-2

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD) KISHANGARH J-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1141

Name of Officer श्री राम प्रसाद (स० अभि०)

ग्रा०का० वि० कार्य अवर प्रमण्डल के विभाग

Date of first entry _____

Date of last entry _____

187a AIC Bill

Name to work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Construction of Road from Chichubur Panam Path to Tharkkudal where it meets ST					
Area - S.M. Imp. Road Project.					
Sub. gini.					
Date of Start - 22-4-2020					
Date of Completion - 25-04-2021					
Date of Entry - 25-9-2020					

(1) Section and Bank area and Return Pathes and all other sub.

$$20 \times 30 = 600.00$$

$$- 2 \times 30 = 60.00$$

$$- 1 \times 15 = 15.00$$

$$\text{net } 0.925 \text{ can}$$

(2) Clearing and grubbing and vegetation and do all other sub. for the area

$$20 \times 30 \times 2 \times 1.20 = 1440.00 \text{ m}^2$$

$$- 12 \times 30 \times 2 \times 1.20 = 864.00 \text{ m}^2$$

$$2304.00 \text{ m}^2$$

$$\text{net } 0.2349$$

Continuation
 W-6-22149

Units of actual measurement				Contents of area
No.	L.	B.	D.	
(3) Excavation in Roadway				
do do				
—	27	30.00	2	0.500 x 0.100 = 81.00 m ³
—	3	30.00	2	0.375 x 0.100 = 6.75 m ³
				87.75 m ³

(4) Contention to be removed
 100m as 1000m do
 do

By Extra level Check

Chain	Full Area	in Area	Dist	Value
00-00	3.888	—	—	—
100-00	4.735	4.072	100	407.150

200-00	6.235	5.245	100	524.500
300-00	5.658	5.943	100	554.650
400-00	5.255	5.453	100	545.650
500-00	6.588	5.922	100	592.150
600-00	6.325	6.453	100	645.650
700-00	7.715	7.020	100	702.000
800-00	5.232	6.474	100	647.350
900-00	4.235	4.734	100	473.350
975-00	3.969	4.102	75	307.650

				5490.000
Deliberate Shrink	—	(-)		614.84 m ³
USM	—	(+)		453.23 m ³
USM 91-11	—	(-)		274.22 m ³
PCE	—	(-)		76.00 m ³
PME	—	(-)		61.20 m ³

Continuation

3940.61 m³

USM 707.412 — 2700.00 m³

Continuation

[illegible]

Continuation

Abstract of bill

5

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Curbstone to Bank road					
d/b					
d/w 8m/10 (1/P-1) m					
0.975 km					
@ 3962.46/km —					3864.20
(2) Curbstone to Police Station					
d/b					
d/w 8m/10 (1/P-1) m					
0.975 km					
@ 1812.29/km —					1772.00
(3) Curbstone to Suburban road					
d/b					
d/w 8m/10 (3/P-1) m					
0.221 km					
@ 5113.26/km —					1124.50
(4) Curbstone to Main road					
d/b					
d/w 8m/10 (3/P-2) m					
0.75 km					
@ 76.96/m —					6753.20
(5) Curbstone to Suburban road					
d/b 1000 m d/b					
d/w 8m/10 (4) 4.42 km					
540 m					
@ 175.43/m —					94732.20
					118316.20

Continuation

P.T.O.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		BF	118316	200	
(6) curb with 1 sheet					
for 100 m slab					
Area of sheet No. (4) BP-342					
2160 m ²					
Qty 141.56/m ³ →				3057700	
(7) Curb with 1 sheet					
for 100 m slab					
Area of sheet No. (5) P-342					
443.20 m ²					
Qty 177.07/m ³ →				7856600	
(8) Paving W.B.M. Ruber					
for 100 m slab					
Area of sheet No. (6) P-342					
443.20 m ²					
Qty 2731.71/m ³ →				1211814200	
(9) Paving W.B.M. Sl-IT slab					
do all					
Area of sheet No. (7) P-342					
253.12 m ² Qty 4354.61/m ³ →				1102239200	
				M 2816755200	
Area (2%) W.B.T. →				ET/M 338011200	
Area (1%) bitumen cells →				ET/M 28167200	
				M 3182933200	
Area 0.50% Bit →				ET/M 1594400	
				M 31167019200	
(M 31167019200)					
				26-9-2000	
				DB	

Continuation

AE